



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 154]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 1969/भाद्र 28, 1891

No. 154] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 1969/BHADRA 28, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

RESOLUTION

New Delhi, the 18th September 1969

No. 14(3)/69-COR.—The Government of India have decided that Shri Gopeshwar Nath, Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation, (Department of Rehabilitation) would act as a Member, with effect from the forenoon of the 9th September, 1969 in place of late Shri V. P. Sud, former Joint Secretary to the Government of India, Department of Rehabilitation, in the Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal set up in terms of Government of India, Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Department of Rehabilitation) Resolution No. 5(21)/66-RE dated the 6th January, 1967, as amended from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to:—

1. The Members of the Committee.
2. The Ministries/Departments of the Government of India.
3. The Planning Commission, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat and the Private and Military Secretaries to the President.
4. The Chief Secretaries to the State Governments/Union Territories.

Ordered also that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. GANGOPADHYAY, Joint. Secy.

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय

(पुनर्वासि विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1969

संख्या 14(3)/69-सं०स०—भारत सरकार ने निर्णय किया है कि भारत सरकार के श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय (पुनर्वासि विभाग) के समय समय पर यथा संशोधित संकल्प संख्या 5(21)/66-आर० ई० दिनांक 6 जनवरी, 1967 के अनुसार पश्चिम बंगाल में पुनर्वासि कार्य के लिए स्थापित समीक्षा समिति में भारत सरकार के पुनर्वासि विभाग के भूतपूर्व संयुक्त सचिव स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश सुद के स्थान पर भारत सरकार के श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय (पुनर्वासि विभाग) में संयुक्त सचिव श्री गोपेश्वर नाथ 9 सितम्बर, 1969 के पूर्वाह्न से सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेज दी जाए :—

1. समिति के सभी सदस्य
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
3. योजना आयोग, प्रधान मंत्री का सचिवालय, मंत्रि मण्डल सचिवालय और राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव।
4. राज्य सरकारों / संघ शासित राज्यों के मुख्य सचिव।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

स्मरजित कुमार गंगोपाध्याय, संयुक्त सचिव।